

दादी के दरबार की,  
महिमा अपरम्पार,  
हरपल भक्तों के ऊपर,  
माँ बरसे तेरा प्यार,  
दादी के दरबार की,  
महिमा अपरम्पार ॥

तर्ज देना हो तो दीजिये ।

बूढ़े बालक और नर नारी,  
माँ के दर पे आते है,  
खाली झोली लेकर आते,  
भर भर झोली जाते है,  
जो मांगो सो मिल जाए,  
माँ देने को तैयार,  
दादी के दरबार की,  
महिमा अपरम्पार ॥

सारे जग की ये सेठानी,  
सब बच्चो की माता है,  
देती है चुपचाप सभी को,  
पता नहीं चल पाता है,  
वो दोनों हाथ लुटाए,  
पर भरा रहे भंडार,  
दादी के दरबार की,

महिमा अपरम्पार ॥

जिसके मन में श्रद्धा भक्ति,  
मैया लाड़ लड़ाती है,  
उसके खातिर बिना बुलाए,  
दौड़ी दौड़ी आती है,  
ऐसे प्रेमी का घर तो,  
है मैया का परिवार,  
दादी के दरबार की,  
महिमा अपरम्पार ॥

सच्चे मन से सुमिरन कर ले,  
तेरी सुनाई कर लेगी,  
मन की पीड़ा माँ से कह दे,  
सारे संकट हर लेगी,  
क्यों घबराता है बिन्नु,  
तू आ जा माँ के द्वार,  
Bhajan Diary Lyrics,  
दादी के दरबार की,  
महिमा अपरम्पार ॥

दादी के दरबार की,  
महिमा अपरम्पार,  
हरपल भक्तों के ऊपर,  
माँ बरसे तेरा प्यार,  
दादी के दरबार की,  
महिमा अपरम्पार ॥

Singer Madhuri Madhukar

Source: <https://www.bharattemples.com/dadi-ke-darbar-ki-mahima-aprampaar/>



# Bharat Temples

Complete Bhajans Collections - Download Free Android App

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.numetive.bhajans>

Facebook: <https://www.facebook.com/bharattemples/>

Telegram: <https://t.me/bharattemples>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UC24oJCxZJyhhKzSUD-Lt9Tw>